

जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट 53, दिनांक 16.10.2021

थाना रामपुरा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.09.2021 को थाना रामपुरा क्षेत्र के जंगल करीब 15 वर्षीय लड़के की लाश मिलने की घटना का सफल अनावरण कर, अभियुक्त को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण –

1. सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र चतुर सिंह नि0 भिटौरा थाना रामपुरा जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद आला कत्ल लाठी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.10.2021 को वादी श्री हरी सिंह पुत्र शिवपाल सिंह नि 0 भिटौरा थाना रामपुरा ने तहरीर दी कि अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र आशीष उम्र 15 वर्ष को लाठी से मारकर हत्या करके शव को जंगल के नाले में भरे पानी में फेंक देना, जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुरा पर मु0अ0सं0 109/21 धारा 302/201 भादवि बनाम सुरेन्द्र सिंह यादव पुत्र चतुर सिंह भिटौरा थाना रामपुरा जनपद जालौन पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में रोकथाम अपराध, उक्त हत्या की घटना में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुरा पुलिस टीम को लगाया गया था।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –

थाना रामपुरा पुलिस टीम द्वारा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक ढंग से कार्य करते हुये महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर अभियुक्त को थाना रामपुरा के जगमनपुर तिराहे के आगे पेट्रोल पम्प के पास से दिनांक 16.10.2021 को समय करीब 07.15 बजे गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल बरामद किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हरी सिंह का लड़का आशीष उर्फ छोटू अपनी गाय लेकर नर्सरी जिसकी मैं रखवाली करता हूँ के आप-पास जंगल में चरा रहा था जब मैं घूमते हुये आया तो मैंने जानवरों को चरते हुये देखा और ललकारा तो आशीष अपनी गाय ले कर चलने लगा क्यों की अक्सर ये लोग अपने जानवरो को वहीं चराते हैं और मेरे देखने टोकने पर चले जाते हैं इसलिये मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने जोर से एक लाठी पीछे से आशीष के सिर में मार दी जिससे वह वहीं गिर गया मैंने उसे हिला डुला कर देखा तो मुझे लगा ये मर गया जिससे मैं डर गया और लाश छिपाने की नियत से आशीष को अपने कन्धे पर ले जाकर भरे हुये पानी के गढ़दे में फेंक दिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0उ0नि0 श्री मूलचन्द्र यादव थाना रामपुरा
2. का0 1684 सुनील कुमार थाना रामपुरा
3. का0 1136 हरेन्द्र प्रताप सिंह थाना रामपुरा
4. आरक्षी चालक विजेन्द्र सिंह थाना रामपुरा